

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जनवरी २०२२ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

### I. अखिल भारतीय सेवाओं के मुद्दे

(i) राजस्थान के आईपीएस संवर्ग में संवर्ग संख्या विनियमन का निर्धारण और उससे संबंधित आईपीएस (वेतन) नियमों में तदनुसूची संशोधनों को दिनांक 21-01-2022 की राजपत्रित अधिसूचना, जीएसआर 35 और 36 के माध्यम से जारी किया गया था।

(ii) उत्तर प्रदेश के आईपीएस संवर्ग में संवर्ग संख्या विनियमन का निर्धारण और उससे संबंधित आईपीएस (वेतन) नियमों में तदनुसूची संशोधनों को दिनांक 24-01-2022 की राजपत्रित अधिसूचना, जीएसआर 40 और 41 के माध्यम से जारी किया गया था।

### II. क्षमता विकास

(i) राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - मिशन कर्मयोगी के भाग के रूप में आईजीओटी-कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म के स्वामित्व, प्रचालन और विकास के लिए 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत 'कर्मयोगी भारत' के नाम से 31.01.2022 को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को शामिल किया गया है।

(ii) कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब के उपयोग को इष्टतम बनाने की दृष्टि से आईएसटीएम ने 20-21 जनवरी, 2022 को आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफार्म के लिए ई-लर्निंग सामग्री विकास पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के 125 अधिकारियों ने भाग लिया।

(iii) एलबीएसएनएए द्वारा दिनांक 11 और 12 जनवरी, 2022 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया में 'एक सतत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत' विषय पर विचार- विमर्श, चर्चा और संवाद करने के लिए आरंभ 3.0 का आयोजन किया गया था, जिसमें 96<sup>वें</sup> कॉमन फाउंडेशन कोर्स के हिस्से के रूप में प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया।

### III. क्षमता विकास आयोग

(i) सीबीसी द्वारा तैयार किए गए सीटीआई कार्यात्मक मूल्यांकन ढांचे के उपकरण की जांच करने के लिए सीबीसी दल ने दिनांक 03.01.2022 को मैसूर में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान की कार्य-पद्धति को समझने के लिए दल ने दिनांक 05.01.2022 को बेंगलूर में एनएसीआईएन के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का भी दौरा किया।

(ii) केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने दिनांक 06-01-2022 को एनवाईकेएस युवा स्वयंसेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के पायलट का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण का

आयोजन क्षमता विकास आयोग के समग्र समन्वय के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एम/ओ वाईएएस) द्वारा किया गया।

(iii) माननीय केन्द्रीय मंत्री, एफपीआई, श्री पशुपति कुमार पारस ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता विकास योजना का विकास और कार्यान्वयन करने वाले प्रथम मंत्रालय के रूप में, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता विकास आयोग की सहायता से विकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की क्षमता विकास योजना का विजन दस्तावेज़ जारी किया।

#### IV. प्रशासनिक मुद्दे

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव, 2022 के दौरान मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में आदेश दिनांक 31.01.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.12/1/2022-जेसीए के माध्यम से जारी किया गया।

#### V. सतर्कता मंजूरी

04 (चार) आईएएस अधिकारियों को एस पैनल में शामिल करने के लिए और अन्य 13 (तेरह) आईएएस अधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों जैसे अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण, परिवीक्षा आदि के लिए सतर्कता मंजूरी जारी की गई।

#### VI. विशेष अभियान

जनवरी-2022 के दौरान 1593 लोक शिकायतों का निपटान किया गया और रिकॉर्ड प्रबंधन के भाग के रूप में 99 फाइलों की समीक्षा की गई और दो अंतर-मंत्रालयी कैबिनेट संदर्भों का निपटान किया गया।

#### VII. चयन एवं नियुक्तियाँ

- (i) पीईएसबी, डीओपीटी ने निदेशक/सदस्य के 14 (चौदह) पदों और एमडी/सीएमडी के 02 (दो) पदों के लिए विज्ञापन जारी किए, सीएमडी/एमडी के लिए 02 (दो) चयन बैठकें और निदेशकों के लिए 15 (पंद्रह) चयन बैठकें आयोजित की गईं।
- (ii) कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित परिणाम घोषित किए:
  - क. दिनांक 27-01-2022 को कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत और गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019 ।
  - ख. दिनांक 31.01.2022 को दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा, 2019 का अंतिम परिणाम।
  - ग. दिनांक 24-01-2022 को चरण VII/2019/चयन पद परीक्षा (पद कोड डबल्यूआर 12519 के लिए स्नातक और उससे ऊपर के स्तर) के लिए ओएच उम्मीदवारों का अतिरिक्त परिणाम।
  - घ. दिनांक 21-01-2022 को आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2020 ।
  - ङ. दिनांक 06-01-2022 को दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निरीक्षक परीक्षा, 2020 का प्रश्न पत्र-II

(iii) कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाएं भी आयोजित की:

क. दिनांक 28.01.2022 को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 का टियर-II

ख. दिनांक 09.01.2022 को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2020 का टियर-II

ग. दिनांक 28-01-2022 और 30-01-2022 को वरिष्ठ सचिवालय सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017 और कनिष्ठ सचिवालय सहायक/निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2018